



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 चैत्र 1932 (श0)  
(सं0 पटना 273) पटना, मंगलवार, 20 अप्रील 2010

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना  
19 अप्रील 2010

सं0 1/जन0 ग0-स्था0-07/10-26—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा-8 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, केन्द्रीय सरकार, गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या का0आ0 518(अ0), दिनांक 25 फरवरी 2010, जो भारत सरकार के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के हस्ताक्षर से निर्गत है, के आलोक में यह आदेश देते हैं कि सभी जनगणना अधिकारी उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना, 2011 के सम्बन्ध में मकानसूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकेंगे :-

- (1) भवन नम्बर (नगर अथवा स्थानीय प्राधिकार अथवा जनगणना नम्बर)
- (2) जनगणना मकान नम्बर
- (3) जनगणना मकान के फर्श, दीवार तथा छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
- (4) जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं
- (5) जनगणना मकान की हालत
- (6) परिवार क्रमांक
- (7) इस परिवार में सामान्य: रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या :-
  - (i) व्यक्ति
  - (ii) पुरुष
  - (iii) स्त्री
- (8) परिवार के मुखिया का नाम
- (9) लिंग
- (10) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य से सम्बन्धित हो
- (11) इस मकान के स्वामित्व की स्थिति
- (12) इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
- (13) परिवार में रहने वाले विवाहित दम्पतियों की संख्या
- (14) पेयजल का मुख्य स्रोत
- (15) पेयजल की उपलब्धता

- (16) प्रकाश का मुख्य स्रोत
- (17) परिसर के भीतर शौचालय
- (18) शौचालय की सुविधा का प्रकार
- (19) गन्दे पानी का निकासी
- (20) स्नानगृह की सुविधा
- (21) रसोईघर
- (22) खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन
- (23) रेडियो/ट्रांजिस्टर
- (24) टेलीविजन
- (25) कम्प्यूटर/लैपटॉप
- (26) टेलीफोन/मोबाइल फोन
- (27) साईकिल
- (28) स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड
- (29) कार/जीप/वैन
- (30) बैंकिंग सेवा का उपयोग कर रहे हैं।

टिप्पणी—मद सं० 1 से 5 भवन के विवरणों से मद सं० 6 से 7 परिवार के विवरणों (पूर्णतः अथवा अंशतः आवासीय आयोग में लाए गए जनगणना मकान के लिए) से मद सं० 8 से 10 परिवार के मुखिया से और मद सं० 9 से 30 केवल सामान्य परिवार से सम्बन्धित है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
सी० अशोकवर्धन,  
प्रधान सचिव—सह—  
राज्य समन्वयक, जनगणना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 273-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>